



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 3009]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3440(अ).— आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक संस्था, 'स्वास्थ्य साथी समिति' कोलकाता को, उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

“(क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अनुदान; और

(ख) अनुदान पर व्याज आय राशि।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'स्वास्थ्य साथी समिति' कोलकाता:—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 88 /2017, फा. सं.300196/22/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

S.O. 3440(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Swasthya Sathi Samiti', Kolkata, a body established by the Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

- a) Grant received from the Government of West Bengal; and
 - b) Interest income on grants.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Swasthya Sathi Samiti, Kolkata,-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial Years 2016-2017 and shall apply with respect to the Financial Years 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021.

[Notification No. 88/2017/ F. No. 300196/22/2017-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.